



BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India – 334006

T: +91-151-2250350 | E: cs@bikaji.com | W: www.bikaji.com

CIN: L15499RJ1995PLC010856 | GST No.: 08AAICS1030P1Z5

Ref: BFIL/SEC/2026-27/46

Date: August 06, 2026

To,

Dept of Corporate Services

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai 400 001 (Maharashtra)

Scrip Code: 543653

The Listing Department

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai 400 051 (Maharashtra)

Trading Symbol: BIKAJI

Subject: Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026

Dear Sir/ Madam,

We hereby inform you that in compliance with the requirements of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, from time to time, the newspaper publication, containing a Quick Response (QR) Code and the details of the webpage, where complete Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026 are available, as approved by the Board of Directors of the Company, at their meeting held on Wednesday, August 05, 2026 is published in the “Financial Express” in English language newspaper and “Nafa Nuksan” in Vernacular language newspaper on **Thursday, August 06, 2026**. The copies of the newspaper publication are enclosed herewith for your reference.

The aforesaid publication will also be hosted on the website of the Company and same can be accessed at www.bikaji.com.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully,

For Bikaji Foods International Limited

Rahul Joshi

Head – Legal and Company Secretary

Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As Above

CEMANTIC INFRA-TECH LIMITED				
8-1405/A7, DREAM VALLEY, SHANKET, HYDERABAD - 500008 CIN: U72200TG1899L000071, GSTIN: 36AA00801112P Ph: 040-23568890, 23568766 Website: www.cemanticinfra.com, E-Mail: info@cemanticinfra.com				
STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2026				
Particulars	QUARTER ENDED 30.06.2026 (Unaudited)	YEAR ENDED 31.03.2026 (Audited)	YEAR ENDED 31.03.2025 (Audited)	Figure in Lakhs
Total Income from Operations (Net)	0.07	0.07	0.30	
Net Profit (Loss) for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary item(s)	(8.30)	(11.17)	(37.18)	
Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item(s))	(8.30)	(11.17)	(37.18)	
Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item(s) #)	(8.30)	(11.17)	(37.18)	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(8.30)	(11.17)	(37.18)	
Equity Share Capital	2506.56	2506.56	2506.56	
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0.00	0.00	(2276.50)	
Earnings per share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations				
1. Basic	0.04	0.04	0.14	
2. Diluted	0.04	0.04	0.14	
Notes: The above is an extract of the detailed format of Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2026 are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and the Company's website (www.cemanticinfra.com)				
By order of the Board For CEMANTIC INFRA-TECH LIMITED				
S. SATYANARAYANA Managing Director DIN No. 00017110				
Place: Hyderabad Date: 05-08-2026				

INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
Registered Office: Plot A-18, 2nd Floor, Office Block 3, NDCS Tower,
Satyameva Jayate, New Delhi - 110021; CIN No. U01906DL000044238

Edi Ref No.: IFCL/LO/Empanelment/2026

India Infrastructure Finance Company Limited (IFCL) invites Expression of Interest (EOI) from experienced Law Firms/Advocates for empanelment to – i) drafting & vetting of documents pertaining to project finance, agreement, MOU etc. ii) representing IFCL, before different Courts, Tribunals, judicial fora and statutory bodies/authorities; iii) and rendering legal advice on various legal issues. The EOI document can also be downloaded from www.ifcl.in and www.eprocure.gov.in/publishapp.

Eligible and interested Law Firms/Advocates may send their applications in the proforma prescribed to – the General Manager (Legal Department), India Infrastructure Finance Company Limited, 3rd Floor, Office Block-E, World Trade Center, Naraina Nagar, New Delhi 110029; so as to reach IFCL on or before 23.59 hours on 27/08/2026.

Date: 06 August 2026 Sd/-
GM (Legal Department)

AnZen INDIA ENERGY TRUST				
Registered Office: Plot No 29A/3, Eshwari House, CH, CST Road, Kalyan, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra, 400088. SEBI Registration Number: N/InfM/21-22/0020. Email-Id: inf@investorgrivance@caai.in ; Website: www.anzenenergy.in				
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026				
Particulars	June 30, 2026 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2026 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	Year ended March 31, 2026 (Audited)
1. Total Income from Operations	2,892.39	1,600.67	1,106.85	4,776.75
2. Net Profit / (Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary item)	574.88	33.40	71.76	(87.80)
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	574.88	33.40	71.76	(87.80)
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	540.37	35.97	95.52	11.45
5. Total Comprehensive Income [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	540.37	36.31	95.48	31.66
6. Paid up Share Capital (net of issue expenses) (face value of INR 100/- each)	36,557.92	26,518.19	19,571.52	26,538.19
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(6,541.04)	(6,172.74)	(4,452.29)	(6,172.74)
8. Net worth	30,016.88	20,345.45	15,119.23	20,345.45
9. Earnings per unit (INR per unit) - Basic & Diluted	1.98	0.08	0.48	(0.03)
10. Asset Cover (in times)	1.64	1.46	1.85	1.46
11. Debt Equity Ratio (in times)	1.85	2.45	1.25	2.45
12. Debt Service Coverage Ratio (in times)	1.78	1.16	2.32	1.64
13. Interest Service Coverage Ratio (in times)	2.22	1.92	2.31	2.11
14. Total debts to total assets	0.61	0.68	0.54	0.68
15. Distribution Per unit	2.75	2.75	2.75	31.00
16. EBITDA Margin	80.29%	76.23%	88.94%	82.33%
17. Net profit margin percentage	19.68%	2.25%	6.63%	0.24%
18. Current ratio	3.61	1.46	0.54	1.46
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026				
Particulars	June 30, 2026 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2026 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	Year ended March 31, 2026 (Audited)
1. Total Income from Operations	1,325.11	993.81	938.32	3,821.36
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary item)	701.05	548.58	537.68	2,143.61
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	701.05	548.58	537.68	2,143.61
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	696.09	546.39	537.17	2,131.55
5. Total Comprehensive Income [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	696.09	546.39	537.17	2,131.55
6. Earnings per unit (INR per unit) - Basic & Diluted	2.87	2.49	2.74	10.56
Notes: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 04, 2026. 2. On May 19, 2026, the Trust has acquired 100% equity shares and preference shares of the Kudgi Transmission Limited from Infrastructure Yield Plus 8 (IYP 8), Infrastructure Yield Plus 9 (IYP 9) and Infrastructure Yield Plus 10 (IYP 10) in line with the Securities Purchase Agreement executed between the parties on March 12, 2025. Accordingly, the revenue and corresponding expenses reported in the consolidated financial results for various periods may not be comparable. 3. On June 10, 2026, the Trust has acquired 100% equity shares of SEPI Energy Private Limited from Infrastructure Yield Plus 9 (IYP 9) in line with the Securities Purchase Agreement executed between the parties on April 23, 2025. Accordingly, the corresponding expenses reported in the consolidated financial results for various periods may not be comparable. 4. On March 2, 2026, the Trust acquired 44% of paid up equity capital of 12 solar power Special Purpose Vehicles (Solar SPVs) from Escherichia Infratech Data Yield Plus 10 (IDY 10), Energy Private Limited pursuant to Share Purchase Agreements dated January 23, 2026. Accordingly, the revenue and corresponding expenses reported in the consolidated financial results for various periods may not be comparable. 5. On May 19, 2026, the Trust has issued 8,03,40,000 units at a price of INR 125 per unit on preferential basis to the eligible allottees of INR 10,063.00 million in line with the 120th acquisition equity and preference shareholding of Kudgi Transmission Limited from Infrastructure Yield Plus 4 (IYP 4), Infrastructure Yield Plus 5 (IYP 5) and Infrastructure Yield Plus 6 (IYP 6) in accordance with SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 as amended and Guidelines for preferential issue and institutional placement of units by listed method SEBI Master Circular No. 163/2014-Sub-2/PV/2015 dated July 11, 2025. 6. The Trust has redeemed 1,000 Secured, Rated, Listed, Redeemable, Non-Convertible Debentures of face value of INR 1 million each for an aggregate amount of INR 1,000 million on May 27, 2026. 7. The Board of Directors of the Investment Manager has approved a distribution of INR 3.00 per unit for the quarter ended June 30, 2026 to be paid within five working days from the record date. 8. The Debt Service Coverage Ratio (DSCR) has been calculated based on the consolidated financial statements of a portfolio comprising 15 SPVs. Including 12 solar assets that were considered effective March 3, 2026. As the calculation incorporates the quarterly principal repayment obligations of these assets falling due on March 31, 2026, which may represent only a partial period of financial performance from the 12 newly consolidated SPVs, the reported DSCR may not fully represent the portfolio's underlying debt service capacity. This is despite the portfolio having access to full quarter's cash flows available for debt servicing. 9. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the stock exchange(s). The full format of the financial results is available on the website of the stock exchange(s), www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Trust - www.anzenenergy.in				
For Anzen India Energy Yield Plus Trust				
Sd/- Ranjita Desai Whole Time Director & Chief Investment Officer DIN No.: 0969166				
August, 04 2026, Mumbai				

THE BUSINESS DAILY
FINANCIAL EXPRESS
FOR DAILY BUSINESS

MCCXCL
MULTI COMMODITY EXCHANGE CLEARING CORPORATION LIMITED
Regd. Office: Exchange Square, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093
Email Id: ig-mccxcl@mccxcl.com; website: <http://www.mccxcl.com>; Tel: +91-22-6954-6003
CIN: U74999MH2008PLC185349

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
Notice is hereby given that the Eighteenth AGM of the Company will be held on Monday, August 31, 2026 at 4.00 PM, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM dated July 30, 2026. Pursuant to the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, AGM will be held through VC/OAVM.
In terms of said circulars, the AGM Notice along with the Annual Report for Financial Year 2025-26 have been sent in electronic mode to all the Members on August 05, 2026 at their email addresses registered with the Company. The AGM Notice is available on the website of the Company at <https://www.mccxcl.com/disclosures/announcement> and Annual Report is available at <https://www.mccxcl.com/disclosures/financial-results>. The instructions for attending the AGM are provided in the said AGM Notice.
The documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM shall be available for inspection upto the date of the meeting.
Place: Mumbai
Date: August 05, 2026
For Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited
Sd/-
Mandar Kulkarni
Company Secretary

IndusInd Bank
IndusInd Bank Limited
CIN: L0510PH1984PLC076333
Registered Office: 2401, Gen. Thimmayya Road (Cantonment), Pune - 411 001
Secretarial & Investor Services: 701, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovindji Marg, Andheri (East), Mumbai - 400 083,
Tel. No.: +91 6641 2487 / 6641 2358 • Email Id: investor@indusind.com • Website: www.indusindbank.in

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES OF INDUSIND BANK LIMITED
Pursuant to earlier, SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 and SEBI Circular No. SEBI/HO/38/11(2) 2026-MIRSD-PoD/13750/2026 dated January 30, 2026, all Shareholders of the Bank are hereby informed that a Special Window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027, for re-lodgement of transfer requests of physical shares, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and which were rejected / returned / not attended to due to deficiency in the documents / process / or otherwise.
Investors who have missed earlier deadline of March 31, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds) & January 06, 2026, are encouraged to take this opportunity by furnishing the necessary documents to the Bank's Registrar and Transfer Agent M/s MUFG Indime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel.: +91 810811 6767 / 1800 1020 878, e-mail: investor.helpdesk@linkintime.mufg.com.
Place: Mumbai
Date: August 05, 2026
For IndusInd Bank Ltd.
Sd/-
Anand Kumar Das
Company Secretary
Membership No. FCS-6950

INDIA'S FAVOURITE SNACKING PARTNER
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED
Registered Office: F 196 -199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334006
CIN: L15499RJ1995PLC010856, Tel.: +91 151-2250350, E-mail: cs@bikaji.com, Website: www.bikaji.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2026

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on Wednesday, August 05, 2026, approved the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026.

Further, in compliance with the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026, along with Limited Review Report thereon are available on the website of the Stock Exchanges where equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also available on the website of the Company i.e. www.bikaji.com. The same can be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code provided below:



For and on behalf of the Board of Directors of
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

DEEPAK AGARWAL
Chairman and Managing Director
DIN: 00172890
Place: Mumbai
Date: August 05, 2026



Call: +91-151-2250350 • E-mail: care@bikaji.com • Website: www.bikaji.com • Follow us on: [Facebook](https://www.facebook.com/bikaji) [Instagram](https://www.instagram.com/bikaji) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/bikaji) [YouTube](https://www.youtube.com/bikaji) • Download 'Bikaji Online' App at [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bikaji) / [App Store](https://apps.apple.com/in/app/bikaji-online/id1549995100)

BHUIJA • NAMKEEN • SWEETS • PAPAD • SNACKS

paper.financialexpress.com

New Delhi

BIKAJI

Amitji Loves Bikaji

नई कार पर 4 और टू-व्हीलर पर 6 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली@एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अदालत ने आईआरडीए को निर्देश दिया है कि नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि एक-एक वर्ष बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब नई कार खरीदने पर 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष का और बाइक या स्कूटर खरीदने पर 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस एकमुश्त लेना अनिवार्य होगा। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नई कारों के लिए तीन वर्ष और दोपहिया वाहनों के लिए पांच वर्ष का लॉन-टर्म थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया था। अब अदालत ने इस अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहले कुछ वर्ष के बाद थर्ड-पार्टी बीमा रिन्यू नहीं कराते। अदालत के अनुसार, देश में चल रहे करीब 56 परसेंट वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर हैं। ऐसे में दुर्घटना होने पर पीड़ितों को मुआवजा मिलने में परेशानी होती है।

इस फैसले का सबसे पहला असर नई गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत पर दिखाई देगा। अब नई कार या बाइक खरीदते समय ग्राहकों को एक अतिरिक्त वर्ष का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक साथ देना होगा। इससे शुरुआती भुगतान पहले की तुलना में कुछ हजार रुपये बढ़ जाएगा। हालांकि यह राशि केवल एक बार देनी होगी और बाद में कई वर्षों तक थर्ड-पार्टी बीमा का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम वाहन के इंजन और श्रेणी के आधार पर आईआरडीए तय करती है। यदि किसी कार का वार्षिक थर्ड-पार्टी प्रीमियम लगभग 2,000 से 4,000 रुपये है, तो चार वर्ष का कवर लेने पर ग्राहक को लगभग 2,000 से 4,000 रुपये अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान करना पड़ सकता है।

इसी तरह दोपहिया वाहनों में इंजन क्षमता के अनुसार एक अतिरिक्त वर्ष का प्रीमियम जुड़ने से कुल इंश्योरेंस बिल में लगभग 700 से 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि यह बढ़ोतरी केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पर लागू होगी। वाहन को होने वाले नुकसान (ओन-डैमेज इंश्योरेंस) की अवधि और नियम पहले की तरह ही रहेंगे।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वाहन मालिकों को चार या छह वर्ष तक थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का नवीनीकरण कराने की चिंता नहीं रहेगी। यदि इस दौरान बीमा प्रीमियम की दरें बढ़ती हैं, तब भी पहले से खरीदा गया लॉन-टर्म कवर जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को ग्राहकों के लिए चार-स्तरीय मोटर बीमा संरचना विकसित करने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार थर्ड-पार्टी कवर, ड्राइवर कवर, यात्री कवर और वाहन के नुकसान (ओन-डैमेज) का कवर चुन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने से संबंधित है। वाहन को होने वाले नुकसान (ओन-डैमेज) का बीमा पहले की तरह हर वर्ष या बीमा कंपनी की उपलब्ध योजनाओं के अनुसार कराया जा सकेगा।

वैरायती

फॉरेन स्टुडेंट्स से अमेरिका वर्क वीजा के लिए वसूलेगा 1 लाख डॉलर



नफा नुकसान रिसर्च

चाहे जितना विरोध हो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान से बिल्कुल नहीं डिगे हैं और उसपर लगातार एक्शन ले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 28 हजार विदेशी टूक ड्राइवर के लाइसेंस कैसल कर दिये हैं। अमेरिका में टूक ड्राइवर ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं। इन खाली जगहों को पूर्व सैनिकों से भरा जाएगा।

दूसरी ओर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में जाँब करने के इच्छुक विदेशी छात्रों पर ट्रंप प्रशासन 1 लाख डॉलर (लगभग 95 लाख रुपये) वर्क वीजा फीस लगाने पर विचार कर रहा है। प्रेसिडेंट एक ओर गैर-कानूनी रूप से अमेरिका में रहने वाले विदेशियों को खदेड़ रहा है दूसरी ओर इस तरह के कानून के जरिए लोगल इमिग्रेशन (कानूनी प्रवास) के नियमों को भी सख्त कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि यह शुल्क लागू किया जाता है तो विदेशी स्टुडेंट्स पर निर्भर रहने वाली यूनिवर्सिटीज को

बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। साथ ही टेक और फाइनेंस कंपनियों जो फोरेन ग्रेजुएट्स को बड़ी संख्या में भर्ती करती हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ेगा। यह शुल्क ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम से जुड़ा माना जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत पात्र फोरेन स्टुडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद उनके अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर, अमेरिका में अधिकतम तीन वर्ष तक रहने और काम करने की अनुमति मिलती है। सरकारी डेटा के अनुसार वर्ष 2024 में करीब 4.19 लाख फोरेन ग्रेजुएट्स ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रम के तहत अमेरिका में काम कर रहे थे जिनमें से ज्यादातर टेक और फाइनेंस सेक्टर में थे। यही से फोरेन ग्रेजुएट्स के लिए आगे चलकर एच1-बी वीजा का रास्ता खुलता है। पिछले दिनों बोस्टन स्थित एक फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ एच-1बी वीजा आवेदकों पर 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। टेक कंपनियों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे स्किलड पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा।

जयपुर@ऑटो डेस्क

केंद्र सरकार की फ्लेगशिप पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव वेहीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत 22 जुलाई 2026 तक देशभर में 26.54 लाख ईवी को सब्सिडी दी जा चुकी है। सरकार एक ओर ईवी को बढ़ावा देने के लिए डिमांड इंसेंटिव दे रही है, दूसरी ओर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार और ईवी व कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम तैयार करने में मदद दे रही है।

मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2028 तक लागू 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अब तक 2,322 करोड़ रुपये जारी और उपयोग किए जा चुके हैं। योजना के तहत अब तक 23.79 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 2.68 लाख एल5 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, 6,547 ई-रिक्शा और ई-कार्ट तथा 55 इलेक्ट्रिक ट्रकों को इंसेंटिव मिला है। इसके अलावा 14 हजार इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम के तहत 3,811 ई-एम्बुलेंस का टारगेट था लेकिन एक भी ई-एम्बुलेंस को सब्सिडी नहीं दी गई है।

सरकार ने इससे पहले इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के लिए डिमांड इंसेंटिव की समय-सीमा को चार महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया था। पीएम ई-ड्राइव स्कीम का फायदा उठाने में महाराष्ट्र अखिल रहा है जहां 4.28 लाख इलेक्ट्रिक वेहीकल्स को सपोर्ट मिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2.78 लाख, कर्नाटक में 2.67 लाख, तमिलनाडु में 2.59 लाख और मध्य प्रदेश में 1.73 लाख ईवी को सब्सिडी मिली है। सरकार के अनुसार पीएम-ई-ड्राइव स्कीम में राज्यवार, जिलावार या वित्त वर्ष वार टारगेट तय रखे गए थे। इसके बजाय अलग-अलग वेहीकल कैटेगरी के लिए टारगेट तय किए गए हैं। स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर को मिला है। 24.79 लाख के टारगेट के मुकाबले 23.79 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर को

पीएम ई-ड्राइव स्कीम से 26.54 लाख EV को मिला सपोर्ट



इंसेंटिव दिया जा चुका है। वहीं 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रकों का टारगेट था लेकिन केवल 55 ट्रकों को ही इंसेंटिव दिया गया है। सरकार ने पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 6,562 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन

स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार फेम-2 स्कीम के तहत देशभर में 16.71 लाख इलेक्ट्रिक वेहीकल्स को सपोर्ट दिया गया, 9,583

Top 10 States under PM E-DRIVE (EVs Supported as of July 22, 2026)

Rank	State	EVs Supported
1	Maharashtra	4,28,000
2	Uttar Pradesh	2,78,000
3	Karnataka	2,67,000
4	Tamil Nadu	2,59,000
5	MadhyaPradesh	1,73,000
6	Rajasthan	1,31,000
7	Gujarat	1,29,000
8	Kerala	1,09,000
9	Telangana	98,000
10	Bihar	88,000

पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए तथा 5,297 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गईं।



बोरी सिलाई मशीन

इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग स्केल

हेण्ड सीलिंग मशीन



महारानी मशीन्स

बी-5(बेसमेंट), डिडगर लाला, एस सी रोड, जयपुर, जौ : 7300008361, 9314657780

पार्ट्स व रिपेयरिंग सुविधा भी उपलब्ध



मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री : जयपुर सीकर रोड़, गांव जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, 303704 (राजस्थान) भारत
वेबसाइट : www.mayuruniquoters.com ईमेल : secr@mayur.biz टेलीफोन : 91-1423-224001
फैक्स : 91-1423-224420 सीआईएन : एल18101आरजे1992पीएलसी006952

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2026 (अनअंकेक्षित)	31.03.2026 (अनअंकेक्षित)	30.06.2025 (अनअंकेक्षित)	31.03.2026 (अंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	29,219.20	27,665.10	23,543.82	102,207.62
2.	ब्याज, कर डेप्रिसिएशन व एमोर्टाइजेशन से पूर्व लाभ	8,190.18	8,901.87	6,254.65	28,973.54
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	7,411.79	8,123.35	5,497.48	25,898.23
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	5,611.93	5,943.46	4,072.91	19,174.00
5.	अवधि के लिए कुल आय	5,782.51	6,282.68	4,074.31	19,865.61
6.	अंश पूंजी (रुपये 5 प्रति शेयर ऑफिशियल मूल्य)	2,172.63	2,172.63	2,172.63	2,172.63
7.	अन्य अंश पूंजी (रिजर्व)	-	-	-	111,077.52
8.	प्रति शेयर आय : मूल: (रुपये में) घुलित: (रुपये में)	12.92 12.92	13.68 13.68	9.37 9.37	44.13 44.13

नोट्स : सेबी (एलओडीआर) के नियम 47(1) (बी) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी : (रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2026 (अनअंकेक्षित)	31.03.2026 (अनअंकेक्षित)	30.06.2025 (अनअंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2026 (अंकेक्षित)
1.	कारोबार	24,702.88	26,054.79	20,641.18	94,170.96
2.	परिचालन लाभ (ब्याज, कर, डेप्रिसिएशन व एमोर्टाइजेशन से पूर्व लाभ)	8,549.35	9,029.30	6,282.09	30,307.10
3.	कर पूर्व लाभ	7,779.13	8,258.97	5,531.67	27,262.30
4.	कर पश्चात लाभ	5,895.17	6,070.64	4,122.70	20,296.97

*उपरोक्त जानकारी समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अनअंकेक्षित ब्योरेवार वित्तीय परिणामों से उद्धृत की गयी है जो कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गयी हैं। समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.mayuruniquoters.com पर उपलब्ध है। नीचे दिये गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।



स्थान : जयपुर
दिनांक : अगस्त 05, 2026




Automotive



Footwear



Furnishing



Marine Upholstery



Accessories

भारत का पसंदीदा स्नैकिंग पार्टनर

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एफ 196 -199, एफ 178, ई 188, बीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर, राजस्थान, भारत - 334006.
सीआईएन: एल15499आरजे1995पीएलसी010856, टेलीफोन: +91 151-2250350, ईमेल: cs@bikaji.com, वेबसाइट: www.bikaji.com

जून 30, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित एकीकृत एवं समेकित वित्तीय परिणाम

कंपनी के निदेशक मंडल ने बुधवार, अगस्त 05, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में जून 30, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित एकीकृत और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूती और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में, कंपनी के जून 30, 2026 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित एकीकृत और समेकित वित्तीय परिणाम, सीमित समीक्षा रिपोर्ट सहित, उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं जहां कंपनी के समता अंश सूचीबद्ध हैं, अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com, और कंपनी की वेबसाइट www.bikaji.com पर भी उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड वास्ते


दीपक अग्रवाल
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 00192890
स्थान: मुंबई
दिनांक: अगस्त 05, 2026

Call: +91-151-2250350 • E-mail: care@bikaji.com • website: www.bikaji.com • Follow us on: [f](#) [t](#) [in](#) [v](#) • Download 'Bikaji Online' App at: [Google Play](#) [App Store](#)
AN ISO 9001 AND ISO 22000 CERTIFIED ORGANIZATION

B H U J I A • N A M K E E N • S W E E T S • P A P A D • S N A C K S



Amitiji Loves Bikaji



● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

CMYK